



# एक भारत श्रेष्ठ भारत

## Aaj Ka Vakya

Lets learn one sentence every day in 22 different Indian Languages

### 73. I am staying at a hotel near the airport/railway station.

<b>ASSAMESE</b>	মই বেঁমান বন্ধৰৰে ওচৰৰ হোটেল এখনত আছোঁ। মই ৰেল ষ্টেচনৰে ওচৰৰে হোটেল এখনত আছোঁ।	Moi biman bondorore usorore hotel ekhonot asu. Moi rail station r usorore hotel ekhonot asu.
<b>BENGALI</b>	আমি বিমানবন্দৰ এৰ কাছে একটা হোটলে আছি/ আমি ৰেলস্টেশনৰ কাছে একটা হোটলে আছি।	Ami bimanbondor er kache ekta hotel e achi/ ami rail station er kache ekta hotel e achi.
<b>BODO</b>	আং এয়াৰপৰ্ত এৰা ৰেলবে স্তেসননি খাথিনি হতেলাব দঙ।	Ang airport/ railway stationni khathini hotelao dongo.
<b>DOGRI</b>	मैं ब्हाई अड्डे/रेलवे स्टेशन दे लागे इक होटल च रवा करना।	Main bahai adde/railway station de lagge ik hotle ch rava karna.
<b>GUJARATI</b>	હું એરપોર્ટ / રેલવે સ્ટેશન નજીકથી હોટેલમાં જ રહ્યું છું.	Hu airport/railway station naheekathi hotela-maa ja rahyu chhu.
<b>HINDI</b>	मैं एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में ठहरी हूँ।	Main airport ya railway station ke paas ek hotel mein thehri hun.
<b>KANNADA</b>	ನಾನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾನ/ರೈಲು ನಿಲ್ದಾನಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದೇನೆ.	Naanu vimana nildana/ railu nildanakke samipada hotel nalli thangidene.
<b>KASHMIRI</b>	بہ چُہس شہراس نکھے بوٹلس منز روزان	Bi chus shehras nakhi hotles manz rozan.
<b>KONKANI</b>	विमानतळ / रेल्वे स्थानका लागीं आशिल्ल्या हॉटेलांत हांव रावतां?	Vimantall railway sthanakaa lagi ashillya hotelat haav ravta.
<b>MAITHILI</b>	हम हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशनक लऽग एक होटल मे रूकल छी।	Ham hawai adda/railway station lag ek hotel me rukal chhi.
<b>MALAYALAM</b>	ഞാൻ വിമാനത്താവളം അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ ആണ് താമസിക്കുന്നത്.	Njan vimaanathaavalam allengil railway stationu aduthulla hotelilanu thaamasikkunnathu.

<b>MANIPURI</b>	ঐহাক এয়ারপোর্ট, রেলওয়ে ষ্টেশন মনাক নকনা লৈবা হোটেলদা লৈরি।	Eihak airport, railway station manak nakna leiba hotel da leiri.
<b>MARATHI</b>	मी विमानतळ/रेलवे स्थानकाच्या जवळ एका हॉटेलमध्ये राहात आहे.	Me vimaantal/railway sthanakachya javal eka hotelmadhya rahaat aahe.
<b>NEPALI</b>	म हवाई अड्डा / रेलवे स्टेशन नजिकैको एउटा होटलमा बस्दै छु।	Ma hawai adda/ railway station najikkaiko euta hotel ma basdaichu .
<b>ODIA</b>	ମୁଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର କିମ୍ବା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛି.	Mun bimaana bandar kimbaa rela station paakhare thibaa gotie hotel re rahuchhi.
<b>PUNJABI</b>	ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ /ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆਂ।	Main hwayee adde/railway station nedhe ikk hotel vich thehriya hoyia.
<b>SANSKRIT</b>	रेलयानस्थानसमीपे अथवा वायुयानस्थानसमीपे यः भोजनालयः अस्ति तत्र अहं तिष्ठामि।	Relyaansthaanasameepe athva vaayyaanasthaanasameepe yah bhojanaalayah asti tatra aham tishthaami.
<b>SANTALI</b>	इंज द उदंग्हाति/रेल इस्टेशन सुररेना: मिठठां होटेलरे मेनांग - आ।	Inj da udanghati/rail istision sur renag mid-tang hotel re menang-a.
<b>SINDHI</b>	مان ايئرپورٽ / اسٽيشن جي ويجھو هوٽل ۾ رهيل آهيان.	Man airport / station je vejho hotel men rahiyal aahiyaan.
<b>TAMIL</b>	நான் ரயில் அல்லது பேருந்து நிலையத்திற்கு அருகில் உள்ள ஹோட்டலில் தங்கியிருக்கிறேன்.	Nān rayil allatu pērunthu nilaiyattirku arukil uḷḷa hōṭṭalil taṅkiyirukkireṇ.
<b>TELUGU</b>	నేను విమానాశ్రయం/రైల్వే స్టేషన్ వద్ద హోటల్ లో బస్ చేశాను.	NEnu vimAnAshrayam/railway station vadda hotel IO basa cheshaanu.
<b>URDU</b>	میں ہوائی اڈے/ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہوٹل میں قیام پذیر ہوں۔	Main hawai adde /railway station ke nazdeek hotel men qayam pazeer hoon.